

सिटी international school के छात्रों ने मनाया 'बाल दिवस सप्ताह'

By : INVC Team Published On : 21 Nov, 2011 09:14 PM IST



आई.एन.वी.सी., लखनऊ,, देश के प्रथम प्रधानमंत्री व बच्चों के प्रेरणास्रोत पं. जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सिटी international school, इंदिरा नगर, के छात्रों ने बड़े उत्साह व धूमधाम से 'बाल दिवस सप्ताह' मनाया एवं विभिन्न शिक्षात्मक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा पं. नेहरू के व्यक्ति व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस समारोह के अंतर्गत विद्यालय के छात्रों ने जहां पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया तो वहीं दूसरी ओर भौतिक विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित खिलौनों का प्रदर्शन किया गया जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ी में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना था। इसके अलावा लघु नाटिका 'क्लास रूम मस्ती' के मंचन से छात्रों ने खूब आनंद उठाया, साथ ही आदर्श क्लास रूम की अवधारणा को भी साकार रूप प्रदान किया तथापि शिक्षात्मक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत देशभक्ति व चाचा नेहरू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते प्रेरणादायी गीतों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रवाहित किया। इन्हीं में से एक गीत 'हमारी मट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगा चमकेगा तारा' को सभी ने खूब पसंद किया। सिटी international school (सी.आई.एस.) की संस्थापिका-निदेशिका डॉ॰ सुनीता गांधी ने कहा कि यह बाल दिवस सप्ताह छात्रों के सर्वांगीण विकास का प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज छात्रों को उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की जरूरत है ताकि वह मानव जाति के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा सके। सिटी इन्टरनेशनल school छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव प्रयासरत है। हमारा प्रयास है कि नई तकनीकों व नई विधाओं से छात्रों की प्रतिभा को निखारा जाए और ज्ञान-विज्ञान में पारंगत करने के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों का विकास किया जाए। यही कारण है कि अत्यंत अल्प समय में ही सिटी international school ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/सिटी-international-school-के-छात्रों-ने-मनाय/>